



## आइशेन्डॉर्फस्कूल के स्कूल के नियमों में से 10 स्पष्ट नियम

1. हमें एक दूसरे के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि हम कोई हिंसा या अनादर देखते हैं तो मदद/हस्तक्षेप करने के लिए हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए।
2. आइशेन्डॉर्फस्कूल मादक-पदार्थों से मुक्त क्षेत्र है। स्कूल के सम्पूर्ण परिसर के अंदर धूम्रपान और मादक-पदार्थों का सेवन सहन नहीं किया जाएगा।
3. हमें अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से विशेष कक्षों और कम्प्यूटर कक्षों का। चूड़ंग गम से होने वाली मलिनता के खतरे के कारण स्कूल के सम्पूर्ण परिसर में चूड़ंग गम का प्रयोग वर्जित है।
4. हमें बरामदों और सीढ़ियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। स्कूल की इमारत में शोर मचाना, उछलना-कूदना और धक्कम-धक्का नहीं सहन किया जाएगा।
5. हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करेंगे और अवांछित फोटो और विडिओ लेना नहीं सहन करेंगे। इसलिए, स्कूल के सम्पूर्ण परिसर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखने चाहिए और इन्हें ऐसे साथ लेकर चलें जिससे वो दिखें नहीं (हेडफोन भी नहीं)।
6. कक्षाएं काम करने और सीखने के लिए होती हैं, इसलिए जब क्लास चालू हो तो उस समय खाना नहीं खाना चाहिए।
7. स्कूल के सम्पूर्ण परिसर में वाहनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए (इनलाइन स्केट, स्कूटर इत्यादि नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए)।
8. क्लास में कैप, हैट और हुड पहनना वर्जित है।
9. जब तक आप सेकेन्डरी लेवल I में हैं, तब तक आप स्कूल चलने के दौरान स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। छूट के लिए आपको अपने माता-पिता से लिखित अनुमति-पत्र लाना होगा।
10. हम स्कूल कम्प्यूनिटी का हिस्सा हैं। स्कूल का पहचान-पत्र हमेशा अपने साथ रखें और माँगे जाने पर उसे दिखाएं।

अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।